

अर्थशास्त्र- सैद्धांतिक प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम

| भाग अ - परिचय          |  |
|------------------------|--|
| कार्यक्रम: प्रश्न पत्र | कक्षा: बी.ए. प्रथम   |
|                        | सत्र: 2021-22  |
|                        | विषय: अर्थशास्त्र  |
| 1                      | पाठ्यक्रम का कोड: AI-ECONIT  |
| 2                      | पाठ्यक्रम का शीर्षक: अर्थशास्त्र (अध्याय 1)  |
| 3                      | पाठ्यक्रम का प्रकार: कोर कोर्स   |
| 4                      | पूर्वशिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो): किसी भी संकाय से 12वीं उत्तीर्ण   |
| 5                      | पाठ्यक्रम अध्ययन की परिसंस्थितियाँ (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO): इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के बाद विद्यार्थी अर्थशास्त्र के तर्कसंगत व्यवहार और प्रतिस्पर्धी व्यवस्थाओं को समझने में सक्षम होंगे। वे उपभोक्ता और उत्पादकों के व्यवहार और उनके इच्छित उत्पादन के निर्णयों के बारे में जान सकेंगे। विद्यार्थी वितरण के सिद्धान्त और आर्थिक कल्याण की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। अर्थशास्त्र की व्याख्या करने का एक प्रभावी तरीका है जैसे कि सामान्य धरोहर के तरीके, उत्पादन मूल्य निर्धारण और साधन मूल्य निर्धारण। अतः अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के बारे में जानने के लिये अर्थशास्त्र की समझना महत्वपूर्ण है। |
| 6                      | क्रेडिट मात्रा: 6 + 0 = 6  |
| 7                      | कुल अंक: अधिकतम अंक: 25+75   |
|                        | न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33   |

| भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु                           |   |
|---|---|
| व्याख्या की कुल संख्या-क्यूटोरियल-प्रायोगिक (यदि बताएँ) | L-T-P: 03 घंटे  |
| इकाई  | विषय  |
| I. अर्थशास्त्र का परिचय                                 | 1. अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रकृति<br>2. अर्थशास्त्र का सामाजिक विभाग के अन्य विषयों से संबंध<br>3. पारंपरिक एवं आधुनिक अर्थशास्त्र<br>4. आर्थिक विज्ञान की प्रकृति-आगमन एवं निगमन विधि<br>5. मूल अवधारणाएँ-वस्तु, कीमत, मूल्य, विकेंद्रीकृत व्यवहार, आर्थिक नियंत्रण, आदान-प्रदान एवं वजन<br>6. अर्थशास्त्र की केन्द्रीय समस्याएँ-उत्पादन संभावना वक्र |
|   | व्याख्यान की संख्या: 18   |

29.5.21 (डॉ. सी.पी. खन्ना)

5/11/21

|                                    |   |    |
|------------------------------------|---|----|
| II. उपभोक्ता का व्यवहार            | 1. मरणात्यक वृद्धिकोष - उपयोगिता, सीमांत व कुल उपयोगिता<br>2. सीमांत उपयोगिता द्वारा नियंत्रण<br>3. समीपत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की वृत्त<br>4. अत्यंत वृद्धिकोष - तटस्थता वक विरलेष्य अर्थ व विशेषताएँ, उपभोक्ता का संतुलन<br>5. व्यवहारवादी वृद्धिकोष- प्रकृत अधिमान सिद्धान्त<br>6. मांग का नियम एवं उसके अन्वय - विक्रिय वस्तुएं<br>7. मांग की लोच - कीमत, आय व आरंभ लोच | 18 |
| III. उत्पादन                       | 1. पूर्णता का नियम एवं पूर्णता की लोच<br>2. उत्पादन फलन<br>3. परिवर्तनीय अनुपातों के नियम<br>4. पैमाने के प्रतिकूल<br>5. समोत्पाद वक्र - अर्थ व विशेषताएँ<br>6. उत्पादक का संतुलन<br>7. पैमाने की वृद्धि<br>8. आगमन-प्रधानता की अवधारणाएँ-ऊँच, औसत व सीमांत   | 18 |
| IV. बाजार एवं मूल्य निर्धारण       | 1. बाजार का अर्थ एवं वर्गीकरण<br>2. पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं पूर्ण विशेषताएँ<br>3. पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं शुद्ध प्रतिस्पर्धा<br>4. पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण<br>5. एकाधिकार में कीमत व उत्पादन का निर्धारण<br>6. एकाधिकार में कीमत विवेक<br>7. एकाधिकार प्रतिस्पर्धा  | 18 |
| V. साधन कीमत निर्धारण के सिद्धान्त | 1. वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धान्त<br>2. वितरण के सिद्धान्त<br>3. म.साधन<br>4. म.मजदूरी<br>5. म.व्याज<br>6. म.साधन<br>7. कल्याणवादी अर्थशास्त्र की अवधारणा  | 18 |

सार निरूप (की वही) है:  
पारंपरिक अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र, आगमन-निगमन विधि, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन फलन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, सीमांत उत्पादकता।  
भाग स- अनुसंधानित अध्ययन संसाधन  
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन  
अनुसंधानित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:

29.5.21 (डॉ. सी.पी. खन्ना)

5/11/21

8

1. आठवा एच.एल.-सूचना अर्थशास्त्र के विभाग, एच एच एच कम्पनी, नई दिल्ली गरीबस संस्करण
2. बरसा सी.एल.-सूचना अर्थशास्त्र, मेथनल पब्लिकेशन हाउस, अजमेर गरीबस संस्करण
3. विमान एम.एल.-व्यक्ति अर्थशास्त्र - बृन्दा पब्लिकेशन नई दिल्ली
4. मिथा एल.के. एवं पुरी.सी.के. 2001 उद्यम अर्थशास्त्र आर्थिक विज्ञान, विभागाय पब्लिकेशन हाउस मुंबई
5. सेठ एल.एल.-व्यक्ति अर्थशास्त्र
6. पंत जे.सी. एवं मिथा जे.सी. सूचना अर्थशास्त्र, साहित्यभवन पब्लिकेशन, अजमेर
7. सिन्हा सी.सी.एच सिन्हा पुष्पा, अर्थशास्त्र, S.B.P.D. पब्लिकेशन, अजमेर
8. Sinha V.C. and Srivastav Ritu, (2020-21) S.B.P.D. पब्लिकेशन, अजमेर

2. अनुसंधान विज्ञान लेटकोर वेब लिंक
  1. <https://egpp.inflibnet.ac.in/Home/ViewSubject?catid=11>
  2. <https://vikramita.inflibnet.ac.in/index.php/research/subject/%5B%5D=&course=%5B%5D=&fundamental=%5B%5D=&introco=nomict+theory&domain=%5B%5D=&SD=&Social+Sciences>
  3. [https://www.swamiprbbha.gov.in/index.php/channel\\_profile/7](https://www.swamiprbbha.gov.in/index.php/channel_profile/7)

अनुसंधान संकक्ष कोसलारन संकक्षक: <http://www.mcafee.co/Introcon/IEA2007.pdf>

भाग ड - अनुसंधित मूल्यांकन विधियां:

अनुसंधित सतत मूल्यांकन विधियां:  
अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक: 25 विद्यार्थीव्यापक परीक्षा (UE) अंक: 75

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| अंतरिक मूल्यांकन:           | कलास टेस्ट  | 15           |
| सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE): | असाइनमेंट/प्रस्तुतीकरण (डेबेटेशन)                       | 10           |
| आकलन:                       | अनुभाग (ग): तीन बति सद्यु प्रश्न (प्रत्येक 60 शब्द)     | कुल अंक: 25  |
| विद्यार्थीव्यापक परीक्षा:   | अनुभाग (ग): चार सद्यु प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्द)        | 03 x 03 = 09 |
| समय-02.00 घंटे              | अनुभाग (ग): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द) | 04 x 09 = 36 |
|                             |   | 02 x 15 = 30 |
|                             |   | कुल अंक 75   |

ओई विभागी/सुभास:

29.5.21 (डॉ. दीपति ठक्कर)

*[Handwritten signature]*

5/10/21

*[Handwritten signature]*

Economics - Syllabus of Theory Paper

|   |   |                 |                  |
|---|---|-----------------|------------------|
| Part A Introduction   |   |                 |                  |
| Program: Certificate  | Class: B.A. 1 year  | Year: 2021      | Session: 2021-22 |
| Subject: Economics  |   |                 |                  |
| 1 Course Code   | AI-ECONIT   |                 |                  |
| 2 Course Title  | MICRO ECONOMICS (Paper I)   |                 |                  |
| 3 Course Type (Core Course/Elective/General Elective/Vocational/...)    | CORE COURSE   |                 |                  |
| 4 Pre-requisite (if any)  | 12th Pass in Any Discipline   |                 |                  |
| 5 Course Learning outcomes (CLO)  | After completing this course, students will be able to understand rational behaviour and fundamentals of microeconomics. They will be able to explain consumer's and producer's behaviour and their optimum decisions. Students will be able to know about the firms and industry, markets and their decisions about optimum production. They will be also able to explain the theory of distribution and concept of economic welfare. Learning microeconomics is an excellent way to gain an understanding of many factors that affect us in the real-world, such as methods of buying goods, product pricing and input pricing. Ultimately, learning microeconomics is key in learning about the principles of economics. |                 |                  |
| 6 Credit Value  | 06  |                 |                  |
| 7 Total Marks   | Max. Marks: 25+75   | 06              |                  |
| Part B- Content of the Course   |   |                 |                  |
| Total No. of Lectures-Tutorials-Practical (in hours per week): 83 hours |   |                 |                  |
| L-T-P:  |   |                 |                  |
| Unit  | Topics  | No. of Lectures |                  |
| I. Introduction of Economics  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definition, Scope and Nature of Economics</li> <li>2. Relation of Economics with other Social Science Subjects</li> <li>3. Positive and Normative Economics</li> <li>4. Methods of Economic Analysis -Inductive and Deductive methods.</li> <li>5. Basic Concepts - Commodity, Price, Value, Rational Behaviour, Economic Laws, Wants and Choices</li> <li>6. Central Problems of An Economy -Production Possibility Curve</li> </ol>   | 18              |                  |

29.5.21 (डॉ. दीपति ठक्कर)

*[Handwritten signature]*

5/10/21

*[Handwritten signature]*

|  |   |    |
|--|---|----|
| II.<br>Consumer<br>Behaviour             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cardinal Approach - Utility, Marginal Utility and Total Utility</li> <li>2. Law of Diminishing Marginal Utility</li> <li>3. Law of Equi-Marginal Utility, Consumer's Surplus</li> <li>4. Ordinal Approach - Indifference curve - Meaning and Characteristics, Consumer's Equilibrium</li> <li>5. Behavioural Approach - Revealed Preference Theory</li> <li>6. Law of Demand and its exceptions - Giffen goods</li> <li>7. Elasticity of Demand - Price, Income and Cross Elasticity</li> </ol> | 18 |
| III.<br>Production                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Law of Supply and Elasticity of Supply</li> <li>2. Production Function</li> <li>3. Law of Variable Proportions</li> <li>4. Returns to Scale</li> <li>5. ISO - Product Curve - Meaning and Characteristics.</li> <li>6. Producer's Equilibrium</li> <li>7. Economics of Scale</li> <li>8. Concept of Revenue and Cost - Total, Average and Marginal</li> </ol>   | 18 |
| IV.<br>Market and Price<br>Determination | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meaning and Classification of Markets</li> <li>2. Perfect Competition - Meaning and Characteristics</li> <li>3. Perfect Competition and Pure Competition.</li> <li>4. Determination of Price and Output under Perfect Competition</li> <li>5. Determination of Price and Output under Monopoly</li> <li>6. Price Discrimination under Monopoly</li> <li>7. Monopolistic Competition</li> </ol>  | 18 |
| Unit V<br>Theory of Factor<br>Pricing    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marginal Productivity Theory of Distribution</li> <li>2. Theories of Distribution               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rent</li> <li>b. Wage</li> <li>c. Interest</li> <li>d. Profit</li> </ol> </li> <li>3. Concept of Welfare Economics</li> </ol>   | 18 |

22/10/21  
 5/10/21  
 21.5.21 (डॉ. दीपिका बत्रे)  
 21/10/21

Keywords/Tags: Positive Economics, Normative Economics, Inductive and Deductive methods, Consumer Behaviour, Production Function, Perfect Competition, Monopoly, Monopolistic, Marginal Productivity

|  |   |
|--|---|
| <b>Part C-Learning Resources</b>   |   |
| <b>Text Books, Reference Books, Other resources</b>  |   |
| I. Suggested Readings:   |   |
| 1.   | Aluja, H.L. (Latest Addition). Principles of Micro Economics, Sultan Chand and Company, New Delhi (Hindi and English Versions).   |
| 2.   | Barla, C.S. (Latest Addition), Micro Economics, National Publishing House, Jaipur, New Delhi (Hindi and English Versions).  |
| 3.   | Jhingan, M.L. (Latest Addition), Micro Economic, Vrinda Publication, New Delhi (Hindi and English Versions).  |
| 4.   | Karl E. Case and Ray C. Fair, (2007), Principles of Economics, 8th Ed., Pearson Education Inc.  |
| 5.   | Koutsoyiannis, A. (1979), Modern Microeconomics, (2nd Edition), Macmillan Press, London.  |
| 6.   | Kreps, David M. (1990), A Course in Microeconomic Theory, Princeton University Press, Princeton   |
| 7.   | Mankiw, G. (2010), Principles of Microeconomics, 6th ed., South-Western College Publication, USA.   |
| 8.   | Misra, S. K. and Puri, V. K. (2001) - Advanced Micro Economic Theory, Himalaya Publishing House, Bombay (Hindi and English Versions).   |
| 9.   | Salvatore D. (2006), Microeconomics-Theory and Applications, Oxford University Press  |
| 10.  | Salvatore D. (2002) Theory and Problems of Microeconomic Theory, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill Book Company, Singapore   |
| 11.  | पंत जे.सी. एवं मिश्रा जे.पी, सूत्रम अर्थशास्त्र, साहित्यमन्त्र पब्लिकेशन, आगरा  |
| 12.  | सिन्हा, वी.सी. एवं सिन्हा पुष्पा, व्यष्टि अर्थशास्त्र, S.B.P.D. पब्लिकेशन, आगरा   |
| 13.  | Sinha V.C. and Srivastav-Ritu, (2020-21) S.B.P.D. पब्लिकेशन, आगरा   |
| <b>Suggestive Digital Platform :</b>   |   |
| 1  | <a href="https://open.infonet.ac.in/Home/ViewSubject?catid=11">https://open.infonet.ac.in/Home/ViewSubject?catid=11</a>   |
| 2  | <a href="https://vidyamitra.infonet.ac.in/index.php?search?subject%5B%5D=&amp;course%5B%5D=Fundamentals+of+microeconomic+theory&amp;domain%5B%5D=Social+Sciences">https://vidyamitra.infonet.ac.in/index.php?search?subject%5B%5D=&amp;course%5B%5D=Fundamentals+of+microeconomic+theory&amp;domain%5B%5D=Social+Sciences</a> |
| 3  | <a href="https://www.swayamparabha.gov.in/index.php/channel_profile/profile/7">https://www.swayamparabha.gov.in/index.php/channel_profile/profile/7</a>   |
| <b>Suggested equivalent online courses::</b> <a href="http://www.mcafee.co/Introecon/IEA2007.pdf">http://www.mcafee.co/Introecon/IEA2007.pdf</a> |   |

21/10/21  
 21.5.21 (डॉ. दीपिका बत्रे)  
 5/10/21

(4)

**Part D-Assessment and Evaluation**

Suggested Continuous Evaluation Methods:  
Maximum Marks : 100

|   |   |   |
|---|---|---|
| Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25marks University Exam (UE) 75 marks |   |   |
| Internal Assessment :<br>Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)-25             | Class Test<br>Assignment/Presentation   | 15<br>10  |
| External Assessment :<br>University Exam Section:<br>75<br>Time : 02.00 Hours     | Section(A) : Three Very Short Questions (50 Words Each)<br>Section (B) : Four Short Questions (200 Words Each)<br>Section (C) : Two Long Questions (500 Words Each) | 03 x 03 = 09<br>04 x 09 = 36<br>02 x 15 = 30 Total 75 |

Any remarks/ suggestions:

Dr. D. S. Dwivedi  
29.5.21 ( डॉ. दीप्ति द्विवेदी )

Dr. D. S. Dwivedi  
29.5.21

Dr. D. S. Dwivedi  
5/10/21

Department of Higher Education

Dr. D. S. Dwivedi

**अर्थशास्त्र-सैद्धांतिक प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम**

|   |   |  |                          |
|---|---|--|--------------------------|
| कार्यक्रम: प्रमाण पत्र  |   | भाग अ- परिचय   |                          |
| 1 पाठ्यक्रम का कोड  |   | कक्षा: बी.ए. प्रथम   | सत्र: 2021-22            |
| 2 पाठ्यक्रम का सीरिज  |   | विभाग: अर्थशास्त्र   |                          |
| 3 पाठ्यक्रम का प्रकार<br>(कोर्स/पेपेर/विद्यार्थी/वैकल्पिक/इलेक्टिव/सोल्डो/.....)  |   | A1-ECON2T  |                          |
| 4 पूर्वनिष्ठा (Prerequisite)<br>(यदि कोई हो)                                      |   | भारतीय अर्थशास्त्र (पत्र पत्र 2)   | कोर्स                    |
| 5 पाठ्यक्रम अध्ययन की परिपक्वता (कोर्स/तर्जिमा/आउटकम) (CLO)                       |   | किसी भी संकाय से 12वीं जूलियन  |                          |
| 6 क्रेडिट मान   |   | इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के बाद विद्यार्थी भारतीय अर्थशास्त्र का विस्तृत अध्ययन कर अपने विश्लेषणात्मक कौशल में अभिवृद्धि करने में सक्षम होंगे। वे समाचारों के संबंधित मुद्दों से परिचित होंगे तथा मध्यप्रदेश की अर्थशास्त्र की मुद्दों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने में विद्यार्थी सक्षम होंगे। |                          |
| 7 कुल अंक   |   | 6+0=6  |                          |
|   |   | अधिकतम अंक: 25+75  | न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33 |
| व्याख्यान की कुल संख्या-ऑटोरिक्त- शारीरिक (प्रति सप्ताह घंटे में): L-T-P: 03 घंटे |   |  |                          |
| इकाई  |   | विषय   |                          |
| I. परिचय  | 1. भारतीय अर्थशास्त्र की विशेषताएं                            | व्याख्यान की संख्या  |                          |
|   | 2. राष्ट्रीय आय की क्षेत्रीय संरचना एवं प्रवृत्ति             |  |                          |
|   | 3. ध्रमशक्ति का क्षेत्रीय वितरण                               |  |                          |
|   | 4. प्राकृतिक संसाधन सम्यक्- भूमि, जल, पशुधन, वन, खनिज         |  |                          |
|   | 5. जमाबंदीय विशेषताएं- जनसंख्या की संरचना, आकार एवं वृद्धि दर |  |                          |
|   | 6. जनसांख्यिक की समस्याएं एवं जनसंख्या नीति                   |  |                          |
| II. कृषि  | 1. भारतीय कृषि की प्रवृत्ति, महत्व व विशेषताएं                | 18   |                          |
|   | 2. सू उद्योग पद्धति एवं भू-सुधार                              |  |                          |
|   | 3. कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियां                 |  |                          |
|   | 4. हरित क्रांति- उद्देश्य, तत्पश्चात् एवं विफलताएं            |  |                          |
|   | 5. कृषि बिल एवं सीमा  |  |                          |
|   | 6. कृषि विपन्नता  |  |                          |
|   | 7. कृषि में नवीन तकनीक  |  |                          |

Dr. D. S. Dwivedi  
29.5.21 ( डॉ. दीप्ति द्विवेदी )

Dr. D. S. Dwivedi  
5/10/21

Department of Higher Education

|                                      |  |    |
|--------------------------------------|--|----|
| III.<br>उद्योग एवं<br>आधारभूत संरचना | <ol style="list-style-type: none"> <li>स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का औद्योगिक विकास</li> <li>नई औद्योगिक नीति 1991</li> <li>औद्योगीकरण में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की भूमिका</li> <li>सूचना, तथु एवं मध्यम उपकरण(MSME)-परिभाषा, विशेषताएं एवं इनकी भूमिका</li> <li>सूक्ष्म एवं कृटीर उद्योगों की समस्याएं एवं समाधान</li> <li>स्पर्धात्मक क्षमता, मेक इन इण्डिया एवं आत्मनिर्भर भारत</li> <li>आधारभूत संरचना - ऊर्जा, परिवहन एवं संचार</li> </ol>                       | 18 |
| IV.<br>विदेशी व्यापार एवं<br>विकास   | <ol style="list-style-type: none"> <li>भारत का विदेशी व्यापार-मूल्य, दशा व दिशा</li> <li>प्रमुख विदेशी निवेश व बाह्यराष्ट्रीय निगमों की भूमिका</li> <li>घात में विनिवेश</li> <li>भारतीय निवेश-उत्प्रेषण, सफलताएं एवं विफलताएं</li> <li>नीति अन्वय</li> <li>भारतीय आर्थिक समर्थार-गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय विषमताएं</li> </ol>  | 18 |
| V.<br>मध्य प्रदेश की<br>अर्थव्यवस्था | <ol style="list-style-type: none"> <li>मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं</li> <li>मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन - भूमि, जल, वन, खनिज</li> <li>मध्य प्रदेश में कृषि की क्षेत्रीय विशेषताएं एवं अनुचितियां</li> <li>मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास</li> <li>मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास</li> <li>मध्य प्रदेश में आधारभूत संरचना का विकास - ऊर्जा, परिवहन एवं संचार</li> <li>मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास</li> <li>मध्य प्रदेश में रोजगार मूलक योजनाएं</li> </ol> | 18 |

सार बिंदु (बी चर्चे) के:

क्षेत्रीय संरचना, भारत के मानवीय संसाधन, भारतीय कृषि, औद्योगीकरण, आधारभूत संरचना, प्रमुख विदेशी निवेश, क्षेत्रीय विशेषताएं, अर्थिक सेतों और औद्योगिक विकास।

भाग स- अनुसंधित अध्ययन संसाधन  
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

अनुसंधित सहायक पुस्तकें /अन्य/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:

- पिपा एवं पुटी - भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- रुद्रलाल एवं सुन्दरन- भारतीय अर्थव्यवस्था, एच. चान्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
- रुद्रलाल-विकास, मरिची एवं समता, दीप एंड दीप पब्लिकेशन प्रा.लि., नई दिल्ली।
- डॉ. प्रो. पिपा - भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
- Panagariya, Arvind. (2020)-India Unlimited: Reclaiming the Lost Glory, Harper Collins

29.5.21 डॉ. दीप्ति कवले  
5/10/21

Publishers India

- Hariharaan, N. P. (2006) – Lights and Shades of Indian Economy, Vishal Publishing Co., Jalandhar.
- Uma Kapila (20th Edition) (2009) – Indian Economy since Independence, Academic Foundation, New Delhi.
- Reserve Bank of India –Annual Reports.
- Annual Economic Survey, Government of India (Latest).
- Brahmananda, P. R. and V. R. Panchmukhi (Eds) (1987) – The Development Process of the Indian Economy, Himalaya Publishing House, Bombay.
- Government of India, Planning Commission, 12th Five Year Plan, New Delhi
- मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल मध्य प्रदेश

2. अनुसंधित विभिन्न वेबसाइटों के लिंक  
 1. [http://des.mp.gov.in/Portals/0/Economic\\_Survey\\_%202020-21.pdf](http://des.mp.gov.in/Portals/0/Economic_Survey_%202020-21.pdf)  
 2. [https://www.indiabudget.gov.in/economicssurvey/ebook\\_es2021/index.html](https://www.indiabudget.gov.in/economicssurvey/ebook_es2021/index.html)  
 3. [www.indiabudget.gov.in/economicssurvey/](http://www.indiabudget.gov.in/economicssurvey/)  
 4. <https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualReport.nsf/ShowDocument.jspx>  
 5. <https://www.rbi.org.in/Hindi/Scripts/mainpage.aspx>  
 6. <https://epsa.inflibnet.ac.in/Home/ViewSubject?catid=11>  
 7. [https://www.swayamparabha.gov.in/index.php/channel\\_profile/profile/7](https://www.swayamparabha.gov.in/index.php/channel_profile/profile/7)

अनुसंधित समस्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम: [https://onlinecourses.nptel.ac.in/ncc21\\_hs51/preview](https://onlinecourses.nptel.ac.in/ncc21_hs51/preview)

भाग द - अनुसंधित मूल्यांकन विधियां:

अनुसंधित सतत मूल्यांकन विधियां:

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 25 विषयविद्यार्थी परीक्षा (UE) अंक: 75

|                             |  |              |
|-----------------------------|--|--------------|
| आंतरिक मूल्यांकन:           | समाप्त टेस्ट   | 15           |
| सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE): | असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण (पेजेंटेशन)                    | 10           |
|                             |  | कुल अंक :25  |
| आकलन:                       | अनुभाग (स): तीन सत्र प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द)         | 03 x 03 = 09 |
| विषयविद्यार्थी परीक्षा:     | अनुभाग (स): चार तथु प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्द)         | 04 x 09 = 36 |
| समय- 02.00 घंटे             | अनुभाग (स): दो सत्र उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द) | 02 x 15 = 30 |
|                             |  | कुल अंक 75   |

कोई टिप्पणी/सुझाव:

29.5.21 डॉ. दीप्ति कवले  
5/10/21

Economics - Syllabus of Theory Paper

| Part A Introduction   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| Program: Certificate  | Class: B.A. I Year   | Year: 2021<br>2 <sup>nd</sup> Year |
|   |  | Session: 2021-22                   |
| Subject: Economics  |  |                                    |
| 1 Course Code   | AI-ECON2T  |                                    |
| 2 Course Title  | INDIAN ECONOMY (Paper 2)   |                                    |
| 3 Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/...)    | CORE COURSE  |                                    |
| 4 Pre-requisite (if any)  | 12 th Pass in Any Discipline   |                                    |
| 5 Course Learning outcomes (CLO)  | After completing this course, students will be able to sharpen the analytical skills by highlighting on broad overview of the Indian economy. They will be familiar with the issues related to Agriculture, Industry, Foreign Trade, Economic Planning and various Economic Problems of India. Students will be acquainted with broad overview of Madhya Pradesh Economy. They will be able to develop, analyse and interpret events and issues related to Indian Economy. |                                    |
| 6 Credit Value  | 06   |                                    |
| 7 Total Marks   | Max. Marks: 25*75  | Min. Passing Marks: 33             |
| Part B- Content of the Course   |  |                                    |
| Total No. of Lectures-Tutorials-Practical (in hours per week): 03 hours |  |                                    |
| L-T-P:  |  |                                    |
| Unit  | Topics   | No. of Lectures                    |
| I<br>Introduction   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Characteristics of Indian Economy</li> <li>2. Trends and Sectoral Composition of National Income</li> <li>3. Sectoral Distribution of Workforce</li> <li>4. Natural Resource Endowments- Land, Water, Livestock, Forest and Minerals</li> <li>5. Demographic Features - Population Composition, Size and Growth Rates</li> <li>6. Problems and Causes of Over-Population and Population Policy</li> </ol>                        | 18                                 |
| II<br>Agriculture   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nature, Importance and Characteristics of Indian Agriculture</li> </ol>  |                                    |

29.5.21 (डॉ. श्रीमि ठवले)  
 5/10/21  
 65-

|  |  |    |
|--|--|----|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Land Use Pattern and Land Reforms</li> <li>3. Trends in Agricultural Production and Productivity</li> <li>4. Green Revolution- Objectives, Achievements and Failures</li> <li>5. Agriculture Finance and Insurance</li> <li>6. Agriculture Marketing</li> <li>7. New Technology in Agriculture</li> </ol>  | 18 |
| III<br>Industry and Infrastructure       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industrial Development of India after Independence</li> <li>2. New Industrial Policy of 1991</li> <li>3. Role of Public Sector and Private Sector in Industrialization</li> <li>4. MSME- Definition, Characteristics and Its Role</li> <li>5. Problems and Remedies of Small-Scale and Cottage Industries</li> <li>6. Start-up India, Make in India and Aatm Nirbhar Bharat</li> <li>7. Infrastructure Composition -Power, Transport and Communication</li> </ol>                                | 18 |
| Unit IV<br>Foreign Trade and Development | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. India's Foreign Trade- Importance, Composition and Direction</li> <li>2. Role of Foreign Direct Investment, Multinational Corporations</li> <li>3. Disinvestment in India</li> <li>4. Indian Planning -Objectives, Achievements and Failures</li> <li>5. NITI Aayog</li> <li>6. Indian Economic Problems - Poverty, Unemployment and Regional Inequality</li> </ol>  | 18 |
| Unit V<br>Economy of Madhya Pradesh      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salient Features of Madhya Pradesh's Economy</li> <li>2. Natural Resources of Madhya Pradesh- Land, Forest, Water and Minerals</li> <li>3. Trends and Regional Disparities in Agriculture Sector of Madhya Pradesh</li> <li>4. Organic Farming and Polyhouse in Madhya Pradesh</li> <li>5. Industrial Development in Madhya Pradesh</li> <li>6. Infrastructure Development in Madhya Pradesh- Power, Transport and Communication</li> <li>7. Development of Tourism in Madhya Pradesh</li> </ol> | 18 |

29.5.21 (डॉ. श्रीमि ठवले)  
 5/10/21  
 65-

8. Employment oriented Schemes in Madhya Pradesh

**Keywords/Tags:** Sectoral Composition, Human resources of India, Indian Agriculture, Industrialization, Infrastructure, Foreign Direct Investment, Regional Disparities, Organic Farming, Industrial Development

**Part C-Learning Resources**



**Text Books, Reference Books, Other Resources**

- I. Suggested Readings:**
1. Panagariya, Arvind. (2020)-India Unlimited: Reclaiming the Lost Glory, HarperCollins Publishers India
  2. Mishra and Pari (2020) – Indian Economy, Himalaya Publishing House, New Delhi.
  3. Rudra Dutt and Sundaram – Indian Economy, S. Chand and Company, New Delhi.
  4. Hariharan, N. P. (2008) – Lights and Shades of Indian Economy, Vishal Publishing Co., Jalandhar.
  5. Uma Kapila (20th Edition) (2009) – Indian Economy since Independence, Academic Foundation, New Delhi.
  6. Reserve Bank of India –Annual Reports.
  7. Annual Economic Survey, Government of India (Latest).
  8. Brahmaand, P. R. and V. R. Panchamukhi (Eds.) (1987) – The Development Process of the Indian Economy, Himalaya Publishing House, Bombay.
  9. Government of India, Planning Commission, 12th Five Year Plan, New Delhi
  10. रुद्रदत्त-बिक्ता, गरीबी एवं समता, दीप एंड दीप पब्लिकेशन प्रा.लि. नई दिल्ली
  11. जे.पी. मिश्रा -- भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य प्रबन्ध पब्लिकेशन अग्रदा
  12. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 – आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय भोपाल मध्यप्रदेश

**Suggested equivalent online courses:** [https://onlinecourses.nptel.ac.in/noc21\\_his1/preview](https://onlinecourses.nptel.ac.in/noc21_his1/preview)

**Suggestive Digital Platform :**

1. [https://des.mp.gov.in/Portals/0/Economic\\_Survey\\_5%202020-21.pdf](https://des.mp.gov.in/Portals/0/Economic_Survey_5%202020-21.pdf)
2. [https://www.indiabudget.gov.in/economic-survey/ebook\\_es2021/index.html](https://www.indiabudget.gov.in/economic-survey/ebook_es2021/index.html)
3. [www.indiabudget.gov.in/economic/survey/](http://www.indiabudget.gov.in/economic/survey/)
4. <https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualReportMainDisplay.aspx>
5. <https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/armainpage.aspx>
6. <https://eppp.inflibnet.ac.in/Home/ViewSubjectContent-11>
7. [https://www.swayamparabha.gov.in/index.php/channel\\_profile/profile/7](https://www.swayamparabha.gov.in/index.php/channel_profile/profile/7)

  
 डॉ. जी.पी. मिश्रा  
 29.5.21  
 डॉ. दीप्ति डवले  
  
 5/10/21

**Part D-Assessment and Evaluation**


**Suggested Continuous Evaluation Methods:**

Maximum Marks : 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25marks University Exam (UE) 75 marks

| Internal Assessment :                        | Class Test Assignment/Presentation  | 15                                    |
|--|---|---------------------------------------|
| Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):25 |   | 10                                    |
| External Assessment :                        | Sections(A) : Three Very Short Questions (50 Words Each)  | 03 x 03 = 09                          |
| University Exam Section: 75                  | Section (B) : Four Short Questions (200 Words Each) Section (C) : Two Long Questions (500 Words Each) | 04 x 09 = 36<br>02 x 15 = 30 Total 75 |
| Time : 02.00 Hours                           |   |                                       |

Any Remarks/ Suggestions:

डॉ. जी.पी. मिश्रा  
 29.5.21  
 डॉ. दीप्ति डवले  
  
 5/10/21